

आदरणीय दैवी भ्राता एवं समस्त इश्वरीय परिवार

आर्मे शान्ति

सर्व प्रथम आप सभीकाे ८४ वी त्रिमूर्ति शिवजयन्ति की ढेर सारी शुभकामनाए आप सभीकाे अवगत करातेहुये बेहद खुशीकी अनुभूति हाेरही है की ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र, वीरगंजद्वारा महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर सर्व धर्म सदभाव स्नेह मिलन कार्यक्रम ब्रह्माकुमारीज नेपाल के निर्देशक परमआदरणीय राजयोगिनी राजदिदीजी की सभाध्यक्षता तथा माननीय सांसद हरिनारायण रौनियार जी के मुख्य आतिथ्य में बहुत ही भव्य रूपसे सुसम्पन्न किया गया ।

उक्त अवसर में प्रमुख अतिथि सांसद रौनियार ने कहाकी यत्र तत्र धर्म आैर सम्प्रदाय के नाम पर दंगा फसाद तथा हिंसा की आग मे जलरही वर्तमान समय में धर्म, सम्प्रदाय आैर विश्व काेही एकता, भ्रातृत्व तथा सहिष्णुताका पाठ पढानेवाला एक मात्र संस्था ब्रह्माकुमारी संस्था है ।

इसी तरह राजयोगिनी राज दिदी जी अपनी आशिर्वचन मे कहा की संसारमे काेइ भी जाति, वर्ग, धर्म आैर रंगमे आबद्ध मानव हाे सभी एक ही ईश्वर पिता की सन्तान है । उन्हाेने आगे कहा की शान्ति, अहिंसा, प्रेम आैर एकता मे ही मानवताका उज्ज्वल भविष्य निहित है ।

उक्त अवसरमें , प्रदेश सभासद रमेश प्रसाद पटेल, प्रदेश सभासद राजेश्वर प्रसाद साह, प्रदेश सभासद प्रह्लाद गिरी, प्रदेश सभासद अब्दुल रहिम अंसारी, प्रदेश सभासद भिमा यादव, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्माकुमार रामसिंह एेर, मुख्य सञ्चालिका ब्रह्माकुमारी रविना दिदी लगायत के विशिष्ठ अतिथि वक्ताआेें ने भी अपनी अपनी शारगर्भित मन्तव्य व्यक्त किये ।

कार्यक्रम मे इस्लामीक संघ नेपाल, बारा के अध्यक्ष जिक्रुल्लाह अन्सारी, शिख धर्म के प्रतिनिधि तथा प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष जसपाल सिंह, नेकपा के जिला अध्यक्ष प्रभु हजरा, , सामुदायिक सेवा केन्द्र, छपकैया २ के अध्यक्ष सुद्धिन ठकुराई, समाजसेवी पशुपति विक्रम शाह, मधु राणा, निजामुद्दिन समानी, उषा शाह, ब्रह्माकुमार गुणराज लगायत विभिन्न धर्म तथा संघ संस्था के प्रतिनिधि गणाेें उत्साहजनक उपस्थिति रहा ।

आप सभी के सुविधा के लिए कुछ फाेटाे एवं विडियाेज भेजा हुआ है ।

स धन्यवाद

इश्वरीय सेवा में

ब्रह्माकुमार गोकुल गुभाजू

birgunj.np@bkivv.org